



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052024-254383
CG-DL-E-28052024-254383

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2024/ज्येष्ठ 6, 1946

No. 121]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2024/ JYAISHTHA 6, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2024

आ. अ. 130(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर यथा संशोधित अपनी दिनांक 05 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या 434/हि.प्र.-लो.स./2024(2) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी की सहायता के लिए, मतपत्रों की गणना हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्त से संबंधित उक्त अधिसूचना से संलग्न तालिका (2) में विद्यमान प्रविष्टियों के बाद तालिका (1) की प्रत्येक मद के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः जोड़ी जाएगी।

तालिका

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी	सहायक रिटर्निंग अधिकारी (मतों की गणना के लिए)
(1)	(2)
ई0वी0एम0 व वी0वी0पैट की मतगणना के लिए	
1-कांगडा (11-जसवां-प्रागपुर)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला
3-हमीरपुर (39-बड़सर)	उपायुक्त के सहायक आयुक्त, हमीरपुर

3. इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित अधिकारी ईटीपीबीएस की गणना में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की सहायता करेंगे तथा मतों की गणना के समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् ही सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी	सहायक रिटर्निंग अधिकारी (डाक मत पत्रों एवं ईटीपीबीएस की मतगणना के लिए)
(1)	(2)
1-कांगड़ा	23. आयुक्त नगर निगम, धर्मशाला
	24. प्रोबेशनर (भा.प्र.से.), उपायुक्त कार्यालय, धर्मशाला
	25. सचिव हि. प्र. शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला
	26. सहायक आयुक्त, नगर निगम, धर्मशाला
	27. सहायक बन्दोवस्त अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला
	28. जिला कार्यक्रम अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला
	29. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, धर्मशाला
	30. कार्यकारी अभियन्ता, हि.प्र.लो.नि.वि. मण्डल, नगरोटा बगवां
	31. कार्यकारी अभियन्ता (भवन एवं सड़क), हि.प्र.लो.नि.वि. मण्डल, नगरोटा बगवां
	32. कार्यकारी अभियन्ता, हि.प्र.लो.नि.वि. मण्डल, शाहपुर
	33. कार्यकारी अभियन्ता, हि.प्र.रा.वि.प.लि., धर्मशाला
	34. कार्यकारी अभियन्ता, हि.प्र.रा.वि.प.लि. मण्डल, कांगड़ा
	35. कार्यकारी अभियन्ता, हि.प्र.रा.वि.प.लि., मण्डल, देहरा
	36. कार्यकारी अभियन्ता, हि.प्र.रा.वि.प.लि., मण्डल नगरोटा बगवां
	37. कार्यकारी अभियन्ता, हि.प्र.रा.वि.प.लि. मण्डल, शाहपुर
	38. कार्यकारी अभियन्ता, हि.प्र.रा.वि.प.लि., मण्डल, पालमपुर
	39. कार्यकारी अभियन्ता, जल शक्ति विभाग मण्डल, धर्मशाला
	40. कार्यकारी अभियन्ता, जल शक्ति विभाग मण्डल, देहरा
	41. कार्यकारी अभियन्ता, जल शक्ति विभाग मण्डल, शाहपुर
	42. कार्यकारी अभियन्ता, जल शक्ति विभाग मण्डल, नगरोटा बगवां
	43. कार्यकारी अभियन्ता, जल शक्ति विभाग मण्डल, पालमपुर
	44. उप निदेशक, बागवानी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला
	45. उप निदेशक, कृषि, पालमपुर
	46. अतिरिक्त निदेशक, कृषि, कांगड़ा स्थित धर्मशाला
	47. उप निदेशक, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक कृषि, कांगड़ा स्थित धर्मशाला
	48. कार्यकारी अभियन्ता, जल शक्ति विभाग मण्डल, बैजनाथ
	49. एस.एम.एस, खण्ड पंचरुखी, कार्यालय उप निदेशक कार्यालय कृषि, पालमपुर
	50. एस.एम.एस, खण्ड, कांगड़ा कार्यालय, कार्यालय उप निदेशक कृषि, पालमपुर

	51. एस.एम.एस, खण्ड देहरा कार्यालय उप निदेशक कृषि, पालमपुर
	52. एस.एम.एस, राज्य वायो कन्ट्रोल लैब, होलटा, पालमपुर कार्यालय उप निदेशक कृषि, पालमपुर
	53. एस.एम.एस, सोयल टैसटिंग लैब होलटा, पालमपुर कार्यालय उप निदेशक कृषि, पालमपुर
	54. एस.एम.एस, खण्ड रैत कार्यालय उप निदेशक कृषि, पालमपुर
	55. कार्यकारी अभियन्ता, जल शक्ति विभाग मण्डल, नूरपुर
	56. कार्यकारी अभियन्ता, जल शक्ति विभाग मण्डल, इन्दौरा
	57. कार्यकारी अभियन्ता, जल शक्ति विभाग मण्डल, ज्वाली
	58. कार्यकारी अभियन्ता, फिन्ना सिंह प्रोजेक्ट, सदवां नुरपूर
	59. कार्यकारी अभियन्ता, जल शक्ति विभाग मण्डल, फतेहपुर
2- मण्डी	35. अतिरिक्त निदेशक, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, मण्डी स्थित नेरचौक
	36. आयुक्त, नगर निगम, मण्डी
	37. सहायक आयुक्त उपायुक्त, मण्डी
	38. रजिस्ट्रार, अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय हि0प्र0 स्थित नेरचौक
	39. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मण्डी
	40. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, मण्डी
	41. संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, मण्डी
	42. वन मण्डलाधिकारी, मुख्यालय कार्यालय मुख्य अरण्यपाल वन वृत्त, मण्डी
	43. वन मण्डलाधिकारी, नाचन
	44. मण्डलीय प्रबन्धक, वन निगम, मण्डी
	45. परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए., मण्डी
	46. महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, मण्डी
	47. जिला योजना अधिकारी, मण्डी
	48. उप निदेशक कृषि, मण्डी
	49. उप निदेशक बागवानी, मण्डी
	50. जिला नियन्त्रक खाद्य एवं आपूर्ति, मण्डी
	51. जिला कल्याण अधिकारी, मण्डी
	52. जिला रोजगार अधिकारी, मण्डी
	53. उप रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं, मण्डी
	54. क्रेडिट योजना अधिकारी, उपायुक्त कार्यालय, मण्डी
	55. भू-अधिग्रहण अधिकारी, हि0प्र0लो0नि0वि0, मण्डी
	56. उप रजिस्ट्रार, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी

	57. सहायक रजिस्ट्रार, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी
	58. सहायक रजिस्ट्रार, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी
	59. एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी
	60. एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी
	61. एसोसिएट प्रोफेसर, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी
	62. एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिक विज्ञान विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मण्डी
3-हमीरपुर	23. अतिरिक्त निदेशक, रा.के.जी.एम.सी, हमीरपुर
	24. सचिव, भूतपूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर
	25. रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्व विद्यालय, हमीरपुर
	26. परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हमीरपुर
	27. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हमीरपुर
	28. सहायक अभियंता, कार्यालय, अधिशाषी अभियंता, एन0एच0 मण्डल, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर
	29. ओएसडी, कार्यालय, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर
	30. सहायक अभियंता, कार्यालय, अधिशाषी अभियंता, मण्डल, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, टौणी देवी, जिला हमीरपुर
	31. सहायक अभियंता, विद्युत उप-मण्डल, हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, टौणी देवी, जिला हमीरपुर
	32. सहायक अभियंता, कार्यालय, उप-महाप्रबन्धक, एच.पी. बिजली पारेषण निगम लिमिटेड, हमीरपुर स्थित चौकी
	33. सहायक अभियंता, कार्यालय, उप-महाप्रबन्धक, एच.पी. बिजली पारेषण निगम लिमिटेड, हमीरपुर स्थित चौकी
	34. सहायक अभियंता, कार्यालय, अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उपमण्डल वडसर, जिला हमीरपुर
	35. सहायक अभियंता, कार्यालय, एसई, इलैक्ट्रीकल सिस्टम, सर्कल, हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध
	36. सहायक अभियंता, कार्यालय, मुख्य अधिशाषी अभियंता, ई0एस0, हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध
	37. सहायक अभियंता, कार्यालय, एसई, आपरेशन सर्कल, हमीरपुर स्थित अणु
	38. सहायक अभियंता, कार्यालय, जल शक्ति विभाग, मण्डल, हमीरपुर
	39. सहायक अभियंता, कार्यालय, उप-महाप्रबन्धक, एच.पी. बिजली पारेषण निगम लिमिटेड, हमीरपुर स्थित चौकी
	40. सहायक अभियंता, कार्यालय अतिरिक्त एस0ई0, विद्युत मण्डल, नादौन जिला हमीरपुर
	41. प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, भोरंज, जिला हमीरपुर

42. सहायक अभियंता, कार्यालय, सीनियर अधिशाषी अभियंता, विद्युत मण्डल हमीरपुर
43. सहायक अभियंता, कार्यालय, मुख्य अधिशाषी अभियंता ई0एस0, हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध
44. प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हमीरपुर
45. सहायक अभियंता, एस0ई0 (डिजाइन) ई0एस0, हि.प्र.रा.वि.प.लि., हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध
46. सहायक अभियंता, एस0ई0 (डिजाइन) ई0एस0, हि.प्र.रा.वि.प.लि., हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध
47. सहायक अभियंता, एस0ई0 (डिजाइन) ई0एस0, हि.प्र.रा.वि.प.लि., हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध
48. सहायक अभियंता, एस0ई0 (डिजाइन) ई0एस0, हि.प्र.रा.वि.प.लि., हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध
49. सहायक अभियंता, एस0ई0 (डिजाइन) ई0एस0, हि.प्र.रा.वि.प.लि., हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध
50. सहायक अभियंता, कार्यालय, मुख्य अधिशाषी अभियंता, परिचालन वृत, हि.प्र.रा.वि.प.लि., हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध
51. सहायक अभियंता, कार्यालय, डिप्टी जनरल मैनेजर, (डिजाइन), हमीरपुर स्थित अणु, जिला हमीरपुर
52. सहायक अभियंता, कार्यालय, मुख्य अधिशाषी अभियंता, परिचालन वृत, हि.प्र.रा.वि.प.लि., हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध
53. सहायक अभियंता, कार्यालय, मुख्य अधिशाषी अभियंता, परिचालन वृत, हि.प्र.रा.वि.प.लि., हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध
54. सहायक अभियंता, कार्यालय, डिप्टी जनरल मैनेजर, (डिजाइन) हमीरपुर स्थित अणु, जिला हमीरपुर
55. सहायक अभियंता, कार्यालय, डिप्टी जनरल मैनेजर, (डिजाइन) हमीरपुर स्थित अणु, जिला हमीरपुर
56. सहायक अभियंता, कार्यालय, डिप्टी जनरल मैनेजर (डिजाइन), हमीरपुर स्थित अणु, जिला हमीरपुर
57. सहायक अभियंता, कार्यालय, डिप्टी जनरल मैनेजर (डिजाइन), हमीरपुर स्थित अणु, जिला हमीरपुर
58. सहायक अभियंता, कार्यालय, डिप्टी जनरल मैनेजर (डिजाइन), हमीरपुर स्थित अणु, जिला हमीरपुर
59. सहायक अभियंता, कार्यालय, डिप्टी जनरल मैनेजर (डिजाइन), हमीरपुर स्थित अणु, जिला हमीरपुर
60. सहायक अभियंता, कार्यालय, डिप्टी जनरल मैनेजर (डिजाइन), हमीरपुर स्थित अणु, जिला हमीरपुर
61. सहायक अभियंता, कार्यालय, मुख्य अधिशाषी अभियंता, (डिजाइन) ई0एस0, हि.प्र.रा.वि.प.लि., हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध

	62. सहायक अभियंता, कार्यालय, मुख्य अधिशाषी अभियंता (डिजाइन) ई0एस0, हि.प्र.रा.वि.प.लि., हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध
	63. सहायक अभियंता, कार्यालय, मुख्य अभियंता (डिजाइन) ई0एस0, हि.प्र.रा.वि.प.लि., हमीरपुर स्थित मट्टनसिद्ध
	64. सहायक अभियंता, मैकेनिकल, उप मण्डल, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर
	65. सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता (डिजाइन) ई0एस0, हि.प्र.रा.वि.प.लि., हमीरपुर, स्थित मट्टनसिद्ध
	66. सहायक अभियंता, एस0ई0, ऑपरेशन सर्कल, हमीरपुर, स्थित अणु
	67. सहायक अभियंता, कार्यालय, मुख्य अधिशाषी अभियंता, विद्युत मण्डल, हमीरपुर
	68. सहायक अभियंता, कार्यालय, अधिशाषी अभियंता, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग, टौणी देवी, जिला हमीरपुर
	69. सहायक अभियंता, कार्यालय, मुख्य अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मण्डल, हमीरपुर
	70. सहायक अभियंता, कार्यालय, अधिशाषी अभियंता, जल शक्ति विभाग, नादौन, जिला हमीरपुर
	71. सहायक अभियंता, कार्यालय, मुख्य अभियंता, जल शक्ति विभाग, हमीरपुर
	72. खण्ड विकास अधिकारी, भोरज, जिला हमीरपुर
4-शिमला	26. एसोसिएट प्रोफेसर (कंप्यूटर विज्ञान विभाग), हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, शिमला-5
	27. सहायक प्रोफेसर (कंप्यूटर विज्ञान), हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, शिमला-5
	28. सहायक प्रोफेसर (आईटी/सीएसई), यूआईटी, हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, शिमला-5
	29. सहायक प्रोफेसर, पीजीडीसीए/बीसीए/एमसीए, आई.सी.डी.ई.ओ.एल., हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, शिमला-5
	30. सहायक प्रोफेसर (भौतिकी विभाग), हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, शिमला-5
	31. सहायक प्रोफेसर (सिविल इंजीनियरिंग), यूआईटी, एचपीयू, शिमला
	32. सहायक प्रोफेसर (सिविल इंजीनियरिंग), यूआईटी, हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, शिमला-5
	33. एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, संजौली, शिमला
	34. एसोसिएट प्रोफेसर, जीव विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय, शिमला
	35. एसोसिएट प्रोफेसर, संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय, शिमला
	36. एसोसिएट प्रोफेसर, शारीरिक शिक्षा, राजकीय कन्या महाविद्यालय, शिमला
	37. सहायक प्रोफेसर, गणित, राजकीय महाविद्यालय, चौड़ा मैदान, शिमला
	38. सहायक प्रोफेसर, जनसंचार, राजकीय महाविद्यालय, चौड़ा मैदान, शिमला
	39. सहायक प्रोफेसर, अंग्रेजी, राजकीय महाविद्यालय, चौड़ा मैदान, शिमला

	40. सहायक प्रोफेसर, इतिहास, राजकीय महाविद्यालय, चौड़ा मैदान, शिमला
	41. सहायक प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला-5.
	42. सहायक प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला-5
	43. सहायक प्रोफेसर, वाणिज्य, राजकीय महाविद्यालय, संजौली, शिमला
	44. सहायक प्रोफेसर, रसायन विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, संजौली, शिमला
	45. सहायक प्रोफेसर, संगीत, राजकीय महाविद्यालय, चायल कोटी, शिमला
	46. सहायक प्रोफेसर, टीटीएम, राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान, शिमला
	47. सहायक प्रोफेसर, हिन्दी, संस्कृत महाविद्यालय, फागली, शिमला
	48. सहायक प्रोफेसर, दर्शन आचार्य, संस्कृत महाविद्यालय, फागली, शिमला
	49. सहायक प्रोफेसर, व्याकरण आचार्य, संस्कृत महाविद्यालय, फागली, शिमला
	50. सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, संजौली, शिमला-6

तालिका (2) में उल्लिखित उपरोक्त सभी अधिकारी लोक-सभा साधारण चुनाव, 2024 पूरा होने की तारीख से सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करना बंद कर देंगे।

[सं.434/हि.प्र.-लो.स./2024(2)]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2024

O. N. 130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby makes the following amendments in its Notification No. 434/HP-HP/2024(2), dated 05th January, 2024, as amended from time to time.

2. In Column (2) of the table appended to the said notification relating to the appointment of Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency in the State of Himachal Pradesh for the purpose of counting of votes, after the existing entries against each of the item in Column (1), the following corresponding entries shall respectively be added: -

TABLE

No. and Name of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer (For Counting)
1	2
For Counting of votes in EVMs/VVPATs	
1-Kangra (11-Jaswan Pragpur)	Regional Transport Officer, Dharamshala
3-Hamirpur (39-Barsar)	AC to DC, Hamirpur

3. Further, the following officers shall assist the Returning Officer of Parliamentary Constituencies in the counting of votes of ETPBS and shall cease to function as Assistant Returning Officers soon after the counting of votes are completed.

No. and Name of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer (For counting)
For Counting of Votes of Postal Ballot Papers and ETPBS	
1	2
1-Kangra	23. Commissioner, Nagar Nigam, Dharamshala
	24. Probationer IAS, DC Office, Dharamshala
	25. Secretary, HP Board of School Education, Dharamshala
	26. Joint Commissioner, Nagar Nigam, Dharamshala
	27. Assistant Settlement Officer, Kangra at Dharamshala
	28. District Programme Officer, Kangra at Dharamshala
	29. General Manager, DIC, Dharamshala
	30. Executive Engineer, HPPWD, Division, Nagrota Bagwan
	31. Executive Engineer (B&R), HPPWD, Division, Kangra
	32. Executive Engineer, HPPWD Division, Shahpur
	33. Executive Engineer, HPSEBL, Division, Dharamshala
	34. Executive Engineer, HPSEBL, Division, Kangra
	35. Executive Engineer, HPSEBL, Division, Dehra
	36. Executive Engineer, HPSEBL, Division, Nagrota Bagwan
	37. Executive Engineer, HPSEBL, Division Shahpur
	38. Executive Engineer, HPSEBL, Division, Palampur
	39. Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Division, Dharamshala
	40. Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Division, Dehra
	41. Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Division, Shahpur
	42. Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Nagrota
	43. Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Division, Palampur
	44. Deputy Director, Horticulture, Kangra at Dharamshala
	45. Deputy Director, Agriculture, Palampur
	46. Additional Director, Agriculture, Kangra at Dharamshala
	47. Deputy Director O/O Additional Director (Agriculture), Kangra at Dharamshala
	48. Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Division, Baijnath
	49. SMS Dev. Block, Panchrukhi O/O Deputy Director Agriculture, Palampur
	50. SMS Dev. Block Kangra O/O Deputy Director Agriculture, Palampur
	51. SMS Dev. Block Dehra O/O Deputy Director Agriculture, Palampur
	52. SMS State Bio Control Lab, Holta Palampur O/O Deputy Director, Agriculture, Palampur
	53. SMS Soil Testing Lab, Holta, Palampur O/O Deputy Director, Agriculture, Palampur
	54. SMS Dev, Block Rait O/O Deputy Director, Agriculture, Palampur

	55. Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Division, Nurpur
	56. Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Division, Indora
	57. Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Division, Jawali
	58. Executive Engineer, Phina Singh Project Sadwan, Nurpur
	59. Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Division, Fatehpur
2-Mandi	35. Addl. Director, SLBS, Govt. Medical College & Hospital Mandi at Nerchowk
	36. Commissioner, MC Mandi
	37. AC to DC Mandi
	38. Registrar, Atal Medical & Research University H.P. at Nerchowk
	39. RTO, Mandi
	40. DTDO, Mandi
	41. Joint Commissioner, MC Mandi
	42. DFO Hqr. o/o CCF Mandi
	43. DFO Nachan
	44. DM Forest Corporation, Mandi
	45. PO, DRDA, Mandi
	46. GM, DIC Mandi
	47. Distt. Planning Officer, Mandi
	48. Dy. Director Agriculture, Mandi
	49. Dy. Director Horticulture, Mandi
	50. DF & SC, Mandi
	51. Distt. Welfare Officer, Mandi
	52. District Employment Officer, Mandi
	53. Dy. Registrar Co-op. Society, Mandi
	54. CPO, D.C. Office, Mandi
	55. LAO, HPPWD, Mandi
	56. Dy. Registrar, Sardar Patel University, Mandi
	57. Asstt. Registrar, Sardar Patel University, Mandi
	58. Asstt. Registrar, Sardar Patel University, Mandi
	59. Associate Prof., Deptt. of Chemistry, Sardar Patel University Mandi
	60. Associate Prof., Deptt. of Management Studies, Sardar Patel University, Mandi
	61. Associate Prof., Deptt. of Management Studies, Sardar Patel University, Mandi
	62. Associate Prof., Deptt. of Physics, Sardar Patel University, Mandi
3-Hamirpur	23. Additional Director, RKGMC, Hamirpur
	24. Secretary, Ex. Servicemen Corporation, Hamirpur
	25. Registrar, HP Technical University, Hamirpur
	26. Project Officer, DRDA, Hamirpur
	27. RTO, Hamirpur
	28. Assistant Engineer O/o the E.E., NH, Division HPPWD, Hamirpur
	29. OSD o/o the District Sainik welfare Officer, Hamirpur, District Hamirpur

	30. Assistant Engineer, O/o the Executive Engineer, HPPWD Division, Tauni Devi, District Hamirpur
	31. Assistant Engineer, Electrical Sub-Div. HPSEBL, Tauni Devi, Distt. Hamirpur
	32. Assistant Engineer, O/o DGM, Protection and Communication Hamirpur at Chowki
	33. Assistant Engineer, O/o DGM, Protection and Communication Hamirpur at Chowki
	34. Assistant Engineer O/o the E.E., PWD, Division, Barsar, District Hamirpur
	35. Assistant Engineer O/o the SE, Electrical Systems, Circle Hamirpur at Mattansidh, District Hamirpur
	36. Assistant Engineer O/o the Chief Engineer, ES, HPSEB Ltd. at Mattansidh, Distt. Hamirpur
	37. Assistant Engineer O/o the SE, Operations Circle, Hamirpur at Anu
	38. Assistant Engineer, Jal Shakti Vibhag, Division, Hamirpur
	39. Assistant Engineer O/o the DGM, Protection and communication Hamirpur at Chowki
	40. Assistant Engineer O/o the Addl. SE, Electrical Division, Nadaun, District Hamirpur
	41. Principal, Govt. College Bhoranj, District Hamirpur
	42. Assistant Engineer O/o the Sr. XEN, Electrical Division, Hamirpur
	43. Assistant Engineer, O/o the Chief Engineer, ES HPSEB Ltd., at Mattansidh, District Hamirpur
	44. Principal, Govt. Degree College, Hamirpur
	45. Assistant Engineer O/o the SE (Design) ES, HPSEB, Hamirpur at Mattansidh, District Hamirpur
	46. Assistant Engineer, SE (Design) ES, HPSEB, Hamirpur at Mattansidh, District Hamirpur
	47. Assistant Engineer, SE (Design) ES, HPSEB, Hamirpur at Mattansidh, District Hamirpur
	48. Assistant Engineer, SE (Design) ES, HPSEB, Hamirpur at Mattansidh, District Hamirpur
	49. Assistant Engineer, SE (Design) ES, HPSEB, Hamirpur at Mattansidh, District Hamirpur
	50. Assistant Engineer O/o the Chief Engineer, OP, HPSEB, Hamirpur Zone at Mattansidh, District Hamirpur
	51. Assistant Engineer, O/o the DGM (Design) Office at Anu District Hamirpur
	52. Assistant Engineer, O/o the Chief Engineer, OP, HPSEB, Hamirpur Zone at Mattansidh, District Hamirpur
	53. Assistant Engineer O/o the Chief Engineer, OP, HPSEB, Hamirpur Zone at Mattansidh, District Hamirpur
	54. Assistant Engineer, DGM (Design) Office at Anu District Hamirpur
	55. Assistant Engineer, DGM (Design) Office at Anu District Hamirpur
	56. Assistant Engineer, DGM (Design) Office at Anu District Hamirpur
	57. Assistant Engineer, DGM (Design) Office at Anu District Hamirpur
	58. Assistant Engineer, DGM (Design) Office at Anu District Hamirpur

	59. Assistant Engineer, DGM (Design) Office at Anu District Hamirpur
	60. Assistant Engineer, DGM (Design) Office at Anu District Hamirpur
	61. Assistant Engineer o/o the SE (Design) ES, HPSEB, Hamirpur at Mattansidh, District Hamirpur
	62. Assistant Engineer o/o the SE (Design) ES, HPSEB, Hamirpur at Mattansidh, District Hamirpur
	63. Assistant Engineer, SE (Design) ES, HPSEB, Hamirpur at Mattansidh, District Hamirpur
	64. Assistant Engineer, Mechanical Sub- Division, HPPWD, Hamirpur
	65. Assistant Engineer o/o the SE (Design) ES, HPSEB, Hamirpur at Mattansidh, District Hamirpur
	66. Assistant Engineer o/o the SE (Operations) Circle, Hamirpur at Anu
	67. Assistant Engineer o/o the Chief Engineer Hamirpur Zone, HPPWD, Hamirpur
	68. Assistant Engineer o/o the Executive Engineer, PWD, Tauni Devi, District Hamirpur
	69. Assistant Engineer o/o the Executive Engineer, HPPWD, Div. Hamirpur
	70. Assistant Engineer o/o the EE, Jal Shakti Vibhag, Division Nadaun, Distt. Hamirpur
	71. Assistant Engineer o/o the Chief Eng. Jal Shakti Vibhag Zone, Hamirpur
	72. Block Development Officer, Bhoranj, District Hamirpur
4-Shimla (SC)	26. Associate Professor, Deptt. of Computer Science, HPU, Shimla
	27. Assistant Professor, Computer Science, HPU, Shimla
	28. Assistant Professor, IT/CSE, HPU, Shimla
	29. Assistant Professor, MCA/BCA/PGDCA, ICDEOL, HPU, Shimla
	30. Assistant Professor, Deptt. of Physics, HPU, Shimla
	31. Assistant Professor, Civil Engineering, UIT, HPU, Shimla
	32. Assistant Professor, Civil Engineering, UIT, HPU, Shimla
	33. Associate Professor, History, GDC, Sanjauli, Shimla
	34. Associate Professor, Zoology, RKMV, Shimla
	35. Associate Professor, Sanskrit, RKMV, Shimla
	36. Associate Professor, Physical Education, RKMV, Shimla
	37. Assistant Professor, Mathematics, RGGD College, Kotshera, Shimla
	38. Assistant Professor, Mass Communication, RGGD College, Kotshera, Shimla
	39. Assistant Professor, English, RGGD College, Kotshera, Shimla
	40. Assistant Professor, History, RGGD College, Kotshera, Shimla
	41. Assistant Professor, Deptt. of Chemistry, HPU, Shimla
	42. Assistant Professor, Deptt. of Computer Science, HPU, Shimla
	43. Assistant Professor, Commerce, GDC, Sanjauli, Shimla
	44. Assistant Professor, Chemistry, GDC, Sanjauli, Shimla
	45. Assistant Professor, Music, Govt. Degree College, Chail Koti
	46. Assistant Professor, TTM, RGGD College, Kotshera, Shimla
	47. Assistant Professor, Hindi, Sanskrit College, Phagli, Shimla

	48. Assistant Professor, Darshan Acharya, Sanskrit College, Phagli, Shimla
	49. Assistant Professor, Vayakaran Acharya, Sanskrit College, Phagli, Shimla
	50. Assistant Professor, Sociology, GDC, Sanjauli, Shimla

All the above officers, as mentioned in column (2) of the table shall cease to function as Assistant Returning Officers with the completion of the General Elections to the Lok Sabha, 2024.

[No. 434/HP-HP/2024(2)]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.